

संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा - मुख्य परीक्षा (Download) UPSC IAS
Mains Exam 2019 इतिहास (Paper-2)

खण्ड - A

Q1. निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए/निम्नलिखित का उत्तर दीजिए: (10X5=50 अंक)

- (a) "टीपू सुल्तान मैसूर में, महत्वाकांक्षी भूभागीय इरादों वाला, एक शक्तिशाली केंद्रीकृत एवं सैन्यीकृत राज्य का निर्माण का प्रयास कर रहा था।" (10 अंक)
- (b) "स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर ही, जब आर्थिक विकास एक सजग एवं निरंतर अपनाई गई नीति बनी, रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रूपान्तरण में सहायक हो सकने की अपनी क्षमता का बोध करना आरम्भ किया।" (10 अंक)
- (c) "तर्कवाद एवं धार्मिक सार्वभौमिक सुधार आन्दोलनों को ज्ञापित करने वाली दो महत्वपूर्ण बौद्धिक कसौटियां थीं।" (10 अंक)
- (d) "...कोल विद्रोह मुख्यतः छोटानागपुर के जनजातीय निवासियों का गैर-जनजातीय अधिवासियों एवं सेवारत-व्यक्तियों के विरुद्ध युद्ध था।" (10 अंक)
- (e) "क्रिप्स मिशन निरंतर मुसीबतों से ग्रस्त रहा, था अंततः विफल हो गया।" (10 अंक)

- Q2. (a)** अपवहन सिद्धांत कहाँ तक उपनिवेशवाद की राष्ट्रीयवादी समालोचना का केंद्र-बिंदु था? (20 अंक)
- (b) भारत में पश्चिमी शिक्षा को लागू करवाए जाने के लिए प्रयासरत शक्तियों का परीक्षण कीजिए। ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा इसके लिए डाले गए दबाव का विश्लेषण कीजिए। (20 अंक)
- (c) क्या आप इस मत से सहमत हैं कि कर्नाटक में आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष ने दक्षिण भारत के प्रांतीय क्षेत्रों की आंतरिक अवनति को प्रदर्शित किया? (10 अंक)

- Q3. (a)** बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन की प्रमुख प्रवृत्तियों की आप किस प्रकार व्याख्या करेंगे? (20 अंक)
- (b) क्या यह कहना न्यायोचित है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट में सभी ब्रेक्स थे, परन्तु कोई इंजन नहीं था? (20 अंक)
- (c) विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन भारतीय स्त्रियों के प्रति सामाजिक सरोकार उत्पन्न करने में कहाँ तक प्रभावशाली रहा? (10 अंक)

- Q4. (a)** भारत छोड़ो आन्दोलन को एक 'स्वतःस्फूर्त क्रांति' के रूप में क्यों चित्रान्कित किया गया? क्या इसने भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान की? (20 अंक)
- (b) भारत की स्वतंत्रता के लिए 1935 के लिए संघर्ष में सुभाष चन्द्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (20 अंक)
- (c) सामुदायिकता विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज के प्रारम्भ किए जाने से ग्रामीण भारत के कल्याण को प्रोत्साहन कैसे मिला है? (10 अंक)

खण्ड - B

Q5. निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए: (10X5=50 अंक)

- (a) "मुक्त व्यापारियों के तर्क आर्थिक दृढ-निश्चितता, सामाजिक हितकारिता, सर्वदेशीय आदर्शवाद एवं वर्ग पूर्वाग्रह का विलक्षण मिश्रण थे।" (10 अंक)
- (b) "1914 -18 का युद्ध कई दृष्टियों से अभूतपूर्व था एवं मानव इतिहास में, पुर्णतया नवीन।" (10 अंक)
- (c) "लीग ऑफ़ नेशन्स की चीन पर जापानी आक्रमण को बचाने या रोक पाने में निष्प्रभावित, सुरक्षा प्रदान करने वाली एक एजेंसी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को प्रथम गंभीर आघात था।" (10 अंक)
- (d) "गुटनिरपेक्षता, भारत तथा अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्रों के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने व सशक्त करने के संघर्ष के प्रतिक के रूप में मानी गई।" (10 अंक)
- (e) पूर्व-माक्सवादी समाजवाद की प्रकृति की आप कैसे व्याख्या करेंगे? (10 अंक)

Q6. (a) यूरोप में सरकारों की नीतियों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार सुसाध्य किया? (20 अंक)

(b) इटली को 'एक भौगोलिक अभिव्यक्ति' से एक राष्ट्र- राज्य के रूप में कैसे परिवर्तन किया गया ? (20 अंक)

(c) फ़्रांस की आर्थ्यस्था को सहायता पहुँचाने का नेपोलियन का तरज़ीही दृष्टिकोण फ़्रांस को कहाँ तक महाव्दीपीय संघर्षों में उलझाने में परिणत हुआ ? (10 अंक)

Q7. (a) 19वीं शताब्दी में मलाया में ब्रिटिश औपनिवेशिक हस्तक्षेप के लिए आप किन कारकों को उत्तरदायी ठहराएंगे ? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति मलयों ने कैसी प्रतिक्रिया की? (20 अंक)

(b) व्याख्या कीजिए कि लैटिन अमरीका क्यों पूरी 19वीं शताब्दी के अधिकांश काल में चिरकालिक राजनैतिक अस्थिरता एवं क्षेत्रीय सैनिक संघर्षों में घिरा रहा। (20 अंक)

(c) क्या आप इस मत से सहमत हैं नाटो (NATO) के गठन ने वैश्विक समस्याओं के प्रति आमरीकी दृष्टिकोण में एक क्रांति को अंकित किया ? (10 अंक)

Q8. (a) क्या आप इस मत से सहमत हैं कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध श्रेष्ठ एवं निकृष्ट घटनाओं के वैषम्यों में फँसा रहा ? इसने यूरोपीय व्यवस्था (कांसर्ट ऑफ़ यूरोप) को किस प्रकार प्रभावित किया? (20 अंक)

(b) क्या म्यूनख में हिटलर को चेकोस्लोवाकिया एक तस्तरी में पेश किया गया ? इसके क्या निहितार्थ थे ? (20 अंक)

(c) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अरब एकता लाने में मिश्र की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक)